



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 257]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 30, 1977/श्रावण 8, 1899

No. 257]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 30, 1977/SRAVANA 8, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 30th July 1977

G.S.R. 546(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No 136/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, namely:—

In the said notification, in the first proviso,—

(a) after clause (ia), the following clause shall be inserted, namely:—

“(ib) in the case of canvas, duck and filter cloth manufactured on powerlooms (without spinning or processing plants), the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by six per cent *ad valorem* if the duty on such fabrics exceeds six per cent *ad valorem*, and shall be exempted in full if the duty on such fabrics does not exceed six per cent *ad valorem*.”

(b) in clause (ii), for the words “in the case of powerloom fabrics”, the words, brackets, figure and letter “in the case of powerloom fabrics other than those covered by clause (ib)”, shall be substituted.

[No. 258/77]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1977

सां का० नि० 546(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और वीकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 136 77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, प्रथम परन्तुक के, —

(क) खण्ड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) बिजलकरघा पर (कटाई या प्रसस्करण सयद्रो के बिना) विनिर्मित कैनवस, डक और फिल्टर कपडों की दशा में, सारणी में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर में छह प्रतिशत मूल्यानुसार कमी कर दी जाएगी यदि ऐसे फैब्रिको पर शुल्क छह प्रतिशत मूल्यानुसार में अधिक है, और यदि ऐसे फैब्रिको पर शुल्क छह प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक नहीं है तो उन पर पूरी पूरी छूट दे दी जाएगी।

(ख) खण्ड (ii) में “बिजलकरघा के फैब्रिको की दशा में” शब्दों कोष्ठ, अंक और शब्द के स्थान पर “इस परन्तुक के खण्ड (i) के अन्तर्गत आने वाले बिजलकरघा फैब्रिको से भिन्न बिजलकरघा के फैब्रिको की दशा में” शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 258/77]

G.S.R. 547(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Department of Revenue, No. 226/77-Central Excises, dated the 15th July, 1977.—

In the said notification, in the first proviso,—

(a) after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely :—

“(na) in the case of canvas, duck and filter cloth manufactured on powerlooms (without spinning or processing plants), the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by six per cent. *ad valorem* if the duty on such fabrics exceeds six per cent. *ad valorem*, and shall be exempted in full if the duty on such fabrics does not exceed six per cent. *ad valorem*.”

(b) in clause (ii), for the words “in the case of powerloom fabrics”, the words, brackets, figures and letter “in the case of powerloom fabrics other than those covered by clause (ia)”, shall be substituted.

[No. 259/77]

LAJJA RAM, Dy. Secy.

सा० का० नि० 547 (घ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना स० 226 77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, प्रथम परन्तुक के,—

(क) खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्.—

(jjक) बिजलीकरण पं. (कताई या प्रसंस्करण संयंत्र के बिना) विनिर्मित कैनवास, डक और फिल्टर कपड़ों की दशा में, सारणी में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर में छह प्रतिशत मूल्यानुसार कमी कर दी जाएगी यदि ऐसे फैब्रिको पर शुल्क छह प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है, और यदि ऐसे फैब्रिको पर शुल्क छह प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक नहीं है तो उन पर पूरी पूरी छूट दे दी जाएगी।

(ख) खण्ड (ii) में “बिजलीकरण के फैब्रिको की दशा में” शब्दों कोष्ठ, अंक और शब्द के स्थान पर “इस परन्तुक के खण्ड (jjक) के अन्तर्गत आने वाले बिजलीकरण फैब्रिको से भिन्न बिजलीकरण के फैब्रिको की दशा में” शब्द रखे जाएंगे।

[स० 259, 77]

लज्जा राम, उप-सचिव।

